

Ref: D/2024-25/030 Date: 06.09.2024

To, Listing Department National Stock Exchange of India Limited 'Exchange Plaza'. C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Symbol: SBC

To, Listing Department BSE Limited P.J. Towers, Dalal Street Mumbai-400001 Scrip Code: 542725

Subject: Newspaper Advertisement of Annual General Meeting.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and any other applicable provisions, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published for the Annual General Meeting of the Company.

You are requested to kindly take note of the same on your records.

Thanking You

For SBC Exports Limited.

Hariom Sharma Company Secretary and Compliance Officer M. No. A41738

ARC Finance Limited CIN: L51909WB1982PLC035283 Regd. Off.: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court Gate No.4, 4th Floor, Room no. 3, Kolkata-700 001 Email ID: arcfinancelimited@gmail.com

42nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATE(S) AND REMOTE E-VOTING INFORMATION The 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, September 30TH, 2024 at 01:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business set out in

the Notice convening the AGM. Members will be able to attend and participate in

the AGM through VC/OAVM facility only. In compliance with MCA Circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020, SEBI Circular dated May 12, 2020, the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the Annual Report for the financial year 2023-24 including the Notice convening the 42nd Annual General Meeting (AGM) is mailed to the respective email ID registered with the Company further it has been dispatched online and is also available for download from the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and at the website of the Company at www.arcfinance.in.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Members have been provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM dated: 23/09/2024 using electronic voting system (remote e-voting). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited for providing facility for remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM and voting at the AGM. The e-voting portal of NSDL https://www.evoting.nsdl.com/ will be open for voting from Friday, 27th September, 2024 (9:00 A.M. IST) to Sunday, 29th September 2024 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module will be disabled by National Securities Depository Limited for voting thereafter. During this period, a person whose name is recorded in the Registrar of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 23rd September. 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on cut-off date i.e. 23th September, 2024, may obtain the User Id and password in the manner as provided in the Notice of

Only those Members/shareholders who will be present in the AGM through VC/ OAVM facility and have not cast their vote through remote e-voting are eligible to vote at the AGM. However, Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Instructions for the Members for attending the AGM through Video Conference are provided in the Notice of the 42nd Annual General Meeting. The manner of voting remotely ("remote e-voting") is also provided in the Notice of the AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.

Members holding shares in physical mode who have not yet registered/updated their mail IDs, are requested to update the same by emailing the scanned copies of the below mentioned documents at arcfinancelimited@gmail.com: -Signed request letter mentioning name, address, folio no. mobile no. and e-mail

ID of Member: -Scanned copy of share certificate (Front and back)

-Self-attested PAN card.

Self-attested copy of address proof.

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail ID with the relevant Depository Participants with whom they maintain their Demat Account.

The results of e-voting will be placed by the Company on its website www.arcfinance.in within two days of the AGM. The resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the

Annual General Meeting subject to receipt of the requisite number of votes in Member may also send their query in writing through arcfinancelimited@gmail.com

on or before date: 23.09.2024, which would be replied by the Chairman at the time of the meeting. For this purpose, it would not be necessary to register as Mr. Akhil Agarwal, Practicing Company Secretary (Membership No. ACS 35073)

has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process.

In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free number 022-48867000/24997000 or at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in, who will address the grievances connected with the electronic voting. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned email ID or the Registered Office address. **BOOK CLOSURE**

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2024 to, Monday, 30th September, 2024

For Arc Finance Limited Place: Kolkata

Sweety Agarwal Company Secretary M.No. A37272



Date: 05th September, 2024

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Govt. of India Enterprise) (CIN: L74899DL1956G0I02674) Regd. Off.: Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 Ph. No. : 011-23313177, Fax: 23701123, Website : www.stclimited.co.in

NOTICE TO MEMBERS OF 68" ANNUAL GENERAL MEETING.

BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION This is in continuation to our earlier communication dated August 28, 2024, whereby Members of STC India Limited ("the Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEB (LODR) Regulations"] Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circula No. 09/2023 dated September 25, 2023, General Circular No. 14/2020 dated April 08 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2, CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2 CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") the 68th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday September 27, 2024 at 03:30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visua Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of 68th AGM.

The Notice of 68th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024 along with login details for joining the AGM through VC / OAVM facilit including e-voting have been sent on Thursday, September 05, 2024 through e-mail to a those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circular, and the same are als available on Company's website (www.stclimited.co.in), Stock Exchanges' website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of National Securitie Depository Limited ("NSDL") (www.nsdl.co.in).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companie (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (LODR Regulations, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their vote: electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM services provided by NSDL on all resolutions set forth in the Notice of the 68th AGM.

The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 24, 2024 (09.00 A.M.) an ends on Thursday, September 26, 2024 (05.00 P.M.). During this period, members ma cast their votes electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled b

The Members who will have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their votes again through e-voting facility available during the AGM.

Once the Member casts vote on a resolution, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting

during the AGM are provided in the Notice of the 68th AGM. Shri Parveen Rastogi, Managing Partner M/s, Parveen Rastogi & Co. (COP No.26582) has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting

process in a fair and transparent manner.

Date: 05.09.2024

Place: New Delhi

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, September 19, 2024 ("Cut-off date"). A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM. A person who ceases to be a Member as on Cut-off date should treat this Notice fo information purposes only.

Any person, who acquires shares and becomes a Member of the Company after the date of electronic dispatch of the Notice of 68th AGM and holding shares as on the Cut-off date may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 68th AGM or by sending a request to evoting@nsdl.com.

If you have not registered your e-mail address with the Company/DP, you may please follow the below instructions for obtaining login details for e-voting:

Physical Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanner copy of the share certificate (front and back), self attested scanned copy of PAN card, self attested scanned copy of Aadhar Card or any other document as proof of address by email to Company (cs@stclimited.co.in)/RTA email in (admin@mcsregistrars.com).

Demat | Please provide Demat account detials (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL Holding | 16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, self-attested scanned copy of Aadhar Card or any other document as proof of address to Company (cs@stclimited.co.in)/RTA email id(admin@mcsregistrars.com).

Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Rules framed thereunde and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2024 to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 68th AGM.

The result of voting will be declared within 2 working days from the conclusion of AGN

and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report will be placed or the Company's website (www.stclimited.co.in) and NSDL's website (www.nsdl.co.in). If you have any queries or issues regarding attending AGM or e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manage at evoting@nsdl.com or call on 022-4886700 For and on behalf of

The State Trading Corporation of India Limited

Vipin Tripathi Company Secretary



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD. (भारत सरकार का उपक्रम-मिनी रत्न कम्पनी)

(A Govt. of India Undertaking-Mini Ratna Company) कॉरपोरेट पहचान संख्या (CIN): U74899DL1963GOI003913 क्षेत्रीय कार्यालय : ब्लॉक-एक्य्, प्लॉट-12, सेक्टर-5, सॉल्ट लेक, कोलकाता-700091 फोन: 033-2367-1077 / 74, ई-मेल : nsc.kolkata.ro@gmail.com

सं.:- उत्पादन - 03/ एन.एस.सी.:कोल/2024-25/ दिनांक: 05-09-2024 स्चना / NOTICE

पर्व गोदाम के आधार पर विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे तिल, लेक्सिस, मक्का, हॉस्प्राम (कल्बी), चना, ठरद, मेंग और मसर के सीएस और टीएल श्रेणी के बीजों के ताजा ठैवार उत्पद की आपति के लिए अल्पावधि (35 दिन) ई-निविद्य सूचना आमंत्रित की जाती है जब पैकिंग सामग्री को व्यवस्था स्ववं एनएससी दवारा प्रदान किया जाएगा

Short term (05 days) e-Tender Notice is invited for Supply of fresh finished product of various CS & TL category seeds of different varieties of field crops i.e Sesamum, Lathyrus, Maize, Horsegram (Kulthi), Gram, Blackgram, Greengram & Lentil on Ex-godown Basis when packing materials is provided by NSC

धरतत विधरण के लिए जन स्थाना For details, please visit NSC's website निविदा-कोटेशन) के अन्तर्गत निगम की www.indiaseeds.com under Public Notice विश्वसाहर www.indiasceds.com देखें। उस्त (Tender/Quotations). Online bid for the निविदा हेत् ऑनलाइन बोली प्रस्ताव निगम के above tender may be submitted at NSC ई-पोर्टल: https://indiaseeds.enivida. e-Portal: https://indiaseeds.enivida.com com पर अधिकतम 10.09.2024 के 13:30 atest by 13:30 hrs. of 10.09.2024 Corrigendum/ कने तक प्रस्तुत किये जाने चाहिये। शुद्धिपश परिशिष्ट केम्पल निगम को कैमसाइट पर प्रकारिता Addendum, if any, shall only be published in NSC's website.

क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, कोलकाशा / Regional Manager, NSC, Kolkata



OK PLAY INDIA LIMITED

CIN - L28219HR1988PLC030347 Registered Office: Plot No 17 & 18, Roz KaMeo, ndustrial Estate, Tehsil Nuh, District Mewat, Haryana - 122103 Tel: +91 1146190000 | Fax: +91 1146190090 Website: www.okplay.in | Email: info@okplay.in

Notice of 35° Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting information

Notice is hereby given that the 35" Annual General Meeting ('AGM') of the members of OK Play India Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") on Monday, the 30" day of September, 2024 at 12:30 p.m. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended March 31, 2024 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of email of the notices to the shareholders is September 5", 2024.

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2023-24 and login details for e-voting.

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at investor@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN(Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34, 2" Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) along with letter mentioning folio no. if not registered already. Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your e-mail

address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP. These documents are also available on Company's website www.okplay.in for download by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Depository Services (India) Limited (NDSL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Friday, September 27, 2024 (09:00 a.m.) and ends on Sunday, September 29, 2024 (05:00 p.m.). During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 23, 2024, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2024, may obtain the log in ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA, MAS Services Limited at investor@masserv.com. Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. However, if the members are already registered with NSDL for remote evoting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Puneet Kumar Pandey, Practicing Company Secretary (Membership No. A29848 & CP No. 10913) has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms. Meenu Goswami, Company Secretary, OK Play India Limited, Plot No. 17-18, Roz-ka-Meo, Industrial Estate, Tehsil-Nuh, District-Mewat, Haryana-122103, Email: meenu.goswami@okplay.in. NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 24, 2024 to September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

For OK Play India Limited

Meenu Goswami

Date: 05" September, 2024

Company Secretary



CORAL LABORATORIES LIMITED

Registered Office: 3/B Patanwala Compound, Opp. Shreyas Cinema, L.B.S. Marg, Ghatkopar (W), Mumbai, Maharashtra-400 086. Tel: 022-2500 5245 Email: cs@corallab.com Website: www.corallab.com CIN: L24231MH1997PLC422233

NOTICE OF THE 42™ ANNUAL GENERAL MEETING. **BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING**

NOTICE is hereby given that the 42" Annual General Meeting (AGM) of Coral Laboratories Limited ("the Company") will be held on Friday, September 27, 2024 at 01.30 pm through electronic mode video conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of Members at a common venue. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company

In accordance with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, the latest being 09/2023 dated 25" September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI /HO /CFD /POD-2 /P / CIR/2023/167 dated 07th October, 2023, SEBI /HO /CFD /POD-2 /P / CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively 'the Circulars'), the Notice of the AGM along with the Annual General Meeting. The Company has sent Notice of the 42" AGM and Annual Report for the year ended March 31, 2024, on Thursday, September 05, 2024 through electronic mode, to those Members whose email addresses are registered with the Depository Participant/Link Intime India Private Limited (LIIPL), Registrar and Share Transfer Agent. The date of completion of dispatch of Notice and Annual report is Thursday, September 05, 2024.

Notice of the Annual General Meeting is available on the websites of the Company www.corallab.com and on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with Rules made thereunder and Regulation 42 of LODR, the Register of Members and transfer books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide Members, the facility to exercise their right to vote on Resolutions set forth in the Notice of the AGM, by electronic voting system platform (remote e-Voting), provided by Link Intime India Pvt

M/s SARK & Associates LLP, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting and voting at the AGM to ensure that the voting process is done in a fair and transparent manner.

Remote e-Voting period commences on Tuesday, September 24, 2024, 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, September 26, 2024, 5:00 p.m. (IST). During this period. Members holding shares in physical or dematerialized form as on Friday. September 20, 2024, i.e. cut-off date, may cast their votes electronically. The e-Voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited (LIIPL) for voting thereafter. Members are permitted to join the AGM through VC /OAVM 15 minutes before and after the scheduled time of commencement of the AGM through the facility provided by Link Intime India Private Limited (LIIPL). Members who have casted their vote through remote e-Voting prior to the AGM, may attend/participate in the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. The members who are present at the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the AGM. The detailed procedure and instructions for e-voting during the AGM are mentioned in the AGM notice. Voting rights of Members shall be in the proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Friday, September 20, 2024. Any person who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote electronically on all the Resolutions set forth in the Notice of the AGM. The detailed procedure and instructions for casting votes through remote e-voting or

e-voting during the AGM for all Members (including the Members holding shares in physical form/ whose email addresses are not registered with the DPs/ Company/ In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means

Members can also contact: Name: Rajiv Ranjan, Email: enotices@linkintime.co.in,

Phone: 022 49186000/ 022 49182505. Members who have acquired shares of Company after 30" August 2024 which is the date considered for dispatch of the Notice to Shareholders and upto the Cut -off date

Place: Mumbai

Date: 06.09.2024

mentioned above, may obtain their login details for remote by writing to the Company on cs@corallab.com or to Link Intime India Pvt. Ltd on enotices@linkintime.co.in For Coral Laboratories Limited

> Dhwani Desai Company Secretary & Compliance Officer

Tranway

TRANWAY TECHNOLOGIES LIMITED

L74900KA2015PLC079480 Reg Office: Gf-01, Pallavi Enclave 26th Main, 17th Cross, J P Nagar 6th Phase, Bangalore Ka 560078 Email Id: hr.ind@tranwayinc.com website: www.tranwayinc.com

Shareholders are hereby informed that the Ninth (9th) Annual General Meeting (AGM) of the

company will be held on Saturday, 28th September 2024 at 10:00 AM (IST) through Video Conferencing (VC)/other Audio-Visual means (OVAM) to transact the business as set forth in the Notice of the AGM which will be sent to the shareholders for convening the AGM of the Company. In view of the situation arising due to COVID-19 global pandemic and pursuant to General Circular No's 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 13th January 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12th May 2020 and 15th January 2021 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the 09th AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM, which does not require physical presence of members at a common venue. Shareholders will be able to attend the AGM of the company through VC and their presence through VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 In compliance with the above provisions and the circulars, the notice of the AGM and the Annual

Report for the Financial Year 2023-24 will be sent to all the shareholders of the company whose email addresses are registered with the company/depository Participant(s)/ Registrar and

The Notice and Annual Report will also be available on Company's website at www.tranwayinc.com and on the stock exchange website at www.bseindia.com.

Manner of registering/updating email addresses Those shareholders who are holding shares in dematerialized mode and have not

registered/updated their email addresses with their depository participant(s) are requested to register/update their email addresses with the relevant depository participant(s). Manner of casting vote through e-voting The Company will be providing remote e-voting facility to all its shareholders to cast their votes on

the business as set forth in the notice of the AGM and the facility of voting through e-voting would also be made available during the AGM. The login credentials for casting votes through remote evoting and e-voting during AGM shall be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the company at www.tranwayinc.com and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com

> By Order of the Board of Directors For Tranway Technologies Limited Sd/-

Kalavathy Bylappa Date: 05.09.2024 Place: Bangalore

Chairman and Managing Director

PLATINUM.

PLATINUM INDUSTRIES LIMITED (Formerly Known as Platinum Industries Private Limited)

CIN: U24299MH2020PLC341637 Contact No.: 022-49732818 | Email: compliance@platinumindustriesItd.com Website: www.platinumindustriesltd.com

Regd. Address: Unit No. 841, 4" Floor, Solitaire Corporate Park - 8, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093, Maharashtra

NOTICE OF THE 04™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 04th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Platinum Industries Limited ("Company") will be held on Friday, September 27, 2024, at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM").

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") inter-alia vide its General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, as amended and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, has permitted the holding of the Annual General Meeting through Video Conferencing ("VC") or through other audio-visual means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and MCA Circulars, the 4" AGM of the Company is being held through VC / OAVM.

In compliance with the aforesaid Circulars issued by the MCA and SEBI, the Annual Report for the financial year ended 31" March, 2024 consisting of Financial Statements (Standalone and Consolidated) including Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached therewith including Notice of the 04" AGM of the Company inter alia indicating the process and manner of Remote e-Voting and e-Voting have been sent electronically to all the Members whose e-mail ids are registered with the Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant(s)/ Depositories and to all other persons so entitled.

Members may also note that the Notice of 04" AGM and the Annual Report for FY 2023-24 will also be available on the Company's website i.e. www.platinumindustriesltd.com and on website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com as well as on the website of Bigshare Services Pvt. Ltd. at https://ivote.bigshareonline.com/.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Secretarial Standard on General Meeting (SS-2), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company is pleased to provide to its Members the facility of voting by electronic means in respect of the business to be transacted as per the Notice of AGM. For this purpose, the Company has appointed Bigshare Services Private Limited for facilitating voting through electronic means. The facility of casting votes by a member using Remote e-Voting as well as the e-Voting system on the date of the AGM will be provided by Bigshare Services Private Limited

The Board of Directors of the Company has appointed M/s. Mayank Arora & Co., Company Secretaries (Membership No. FCS 10378 & CP No. 13609), as the Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

All the Members are hereby informed that:

- The business set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
- A person whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date, Friday, September 20, 2024 shall only be entitled to avail the Remote e-Voting facility or voting at AGM;
- The Company has completed the dispatch of Notice of AGM and other documents on Thursday, September 5, 2024, to those shareholders whose email id are registered with the Company/Depository Participant.
- The Remote e-Voting period commences on Tuesday, September 24, 2024 (9:00 a.m.) and ends on Thursday, September 26, 2024 (5:00 p.m.). Members will be provided with the facility for voting through an electronic voting system during the video conferencing proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not cast their vote by Remote e-Voting, will be eligible to exercise their right to vote during such proceedings of the AGM.
- The Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on cut-off date i.e., Friday, September 20, 2024, only shall be entitled to avail the facility of Remote e-Voting or e-Voting at the AGM.
- The Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the closing of working hours of cut-off date i.e., Friday, September 20, 2024, and not cast their vote through Remote e-Voting, may caste their vote at the AGM through e-Voting. A Member may participate in the meeting even after exercising his/her/its right to vote through Remote e-Voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Once the vote is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- In case shareholders/ investor have any queries regarding E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and i-Vote e-Voting module available at https://ivote.bigshareonline.com, under download section or you can email us to ivote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22.
- The members are requested to keep their most updated email id registered with the Company/Depository Participant to receive timely The results of the Remote e-voting and votes cast at the AGM shall be
- declared not later than Forty-eight hours from the conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website viz., www.platinumindustriesltd.com, immediately after declaration, and will be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. Notice is hereby further given that pursuant to the provisions of Section 91 of

the Companies Act, 2013 and the applicable rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Place: Mumbai

For Platinum Industries Limited

Krishna Dushyant Rana Managing Director (DIN: 02071912)

PRABHHANS INDUSTRIES LIMITED CIN: L70200TG1993PLC016389

Registered Office address: PLOT NO.270E/A, MCH NO.985 ROAD NO.10, JUBILEE HILLS HYDERABAD Hyderabad Telangana 500033 India Website: www.prabhhansindltd.in E-mail ID: seagoldacqa@gmail.com

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

- . Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the members of Prabhhans Industries Limited (the Company) will be held on Friday, 27th day of September, 2024 at 03:00 P.M. IST through Video-Conferencing/Other Audio-visual means(VC/OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder read with General Circular issued from time to time, respectively circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"). . Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended
- March 31, 2024 of the Company has been sent to all the members, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s), as on the cut-off date i.e. 30th August, 2024. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars. The Notice and the Annual Report will also be available and can be downloaded from the website of the Company www.prabhhansindltd.in . The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by Central
- Depository Services (India) Limited('CDSL') and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on 24th September, 2024 (09:00 A.M.) and end on 26th September, 2024 (05:00 P.M.) During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 19th September, 2024, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through in person shall be counted
- are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt, document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2023-24 along with AGM Notice by email to seagoldacqa@gmail.com . Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM.
- 5. The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 21st September, 2024 to Friday, 27th September, 2024 (both days inclusive).
- i. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 sent to members in

For Prabhhans Industries Limited

Place: Hyderabad Date: 05-09-2024

Satnam Singh Director & CFO DIN: 09526002

CIN: U52511RJ2006PLC026497. Regd. Off: A-39, Karni Nagar, Lalgarh, Bikaner-334001, Rajasthan

REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the year ending 31" March 2024. have been sent to the members whose email IDs are registered with the Company. The same is also available on the Company's website www.rangsutra.com. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 05* September 2024. Members holding shares, as on cut-off date of 20th day of September 2024, may cast their vote

The remote e-voting shall commence on 24th September 2024 at 09:00 A.M.; ii. The remote e-voting shall end on 26th September 2024 at 05:00 P.M.;

v. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 20°

obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be

i. The notice of AGM is available on the Company's website www.rangsutra.com and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com; or call on toll free no.:1800 22 2990 or contact Mr. Narendra Dév (Assistant Manager), National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400013 at designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or narendrad@nsdl.com or at telephone nos. 022 24994360 or 1800-222-990 (toll free) who will address the grievances connected with the voting by electronic means. The members may also contact Mr. O.P. Sahu,

Sept 2024 to 27th Sept 2024 (both days inclusive). For Rangsutra Crafts India Limited

Date: 05.09.2024 Place : Bikaner

R/o: C-901, Sector-21, Surya Vihar, Industrial Complex, Dundahera, Gurgaon-122016

CIN: L18100UP2011PLC043209

Email: info@sbcexportslimited.com, Website: www.sbcexportslimited.com

1. The 13th Annual General Meeting of the members of the Company will be

in the Notice of the Meeting. 2. Electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2023-24 have been sent to all the shareholders on or before September 05, 2024, whose email addresses are registered with the Company/

3. Manner of registering/updating email addresses:

Shareholders holding share(s) in dematerialized form, are requested to register their email address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. 4. The notice of the 13th AGM and Annual Report for financial year 2023-24 will

India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. 5. A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll, instead of him/her self and the proxy need not be a member. A person can act as proxy on behalf of members' up to and not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the company. Further, a member holding more than ten percent of the total share capital of the company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or

6. Corporate members are requested to send a duly certified copy of the board resolution, pursuant to Section 113 of the Companies Act, 2013, authorising their representative to attend and vote on their behalf at the Meeting.

7. During the period beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting, members would be entitled to inspect the proxies lodged, at any time during the business hours of the Company, provided not less than 3 days written notice is

8. Members/Proxies/Authorised Representatives should bring the duly filled Attendance Slips enclosed to attend the meeting.

9. The Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting (AGM)

holding shares in physical mode. 11. Documents referred to in the notice and the explanatory statement shall be kept open for inspection by the members at the registered office of the

IST) and ends on 29th September, 2024 (5:00 P.M IST). The remote e-voting module shall be disabled by Bigshare Services Private Limited for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. 23rd September, 2024, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being 23rd September, 2024.

For SBC Exports Limited

Hariom Sharma Company Secretary

Lucknow

Date: 05" September, 2024 Place: Sahibabad financialexp.epapr.in

for reckoning the guorum under Section 103 of the Act. . Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses

accordance with the applicable provisions in due course.

RANGSUTRA CRAFTS INDIA LIMITED E-mail: info@rangsutra.com, website:www.rangsutra.com, Contact no.: +91-8432019901

The notice is hereby given that . The 18th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held at Bikaner Zila Udhyog Sangh, Near RidhiSidhi Bhawan, Road No 5, Rani Bazar Industrial Area, Bikaner-334001, Rajasthanon Friday, 27th day of September, 2024 at 02:00 P.M. to transact the Ordinary and

NOTICE OF 18™ ANNUAL GENERAL MEETING

electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that: The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through

electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. 20th Sept 2024, may

made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot

Regional Head-West at his email id: opsahu@rangsutra.com and contact No. #91-8432019901. The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from 20" On behalf of Board of Directors

> Sumita Ghose Managing Director

SBC EXPORTS LIMITED

Regd. Off.: 9, LOHIYA TALAB, CHHOTI BASAHI P.O.: VINDHYACHAL MIRZAPUR UP 231307 IN, Tel: 0120-2895246

NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING,

E-VOTING AND BOOK CLOSURE The Notice is hereby given that:-

held on Monday the 30th day of September, 2024 at 10:00 a.m. at the registered office of the company at 9, Lohiya Talab, Chhoti basahi P.O.: Vindhyachal, Mirzapur - 231307, Uttar Pradesh to transact the business that will be set forth

Depository Participant(s).

also be made available on the Company's website at www.sbcexportslimited.com websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of

office of the company not less than 48 hours before the time of holding the

given to the Company.

10. Annual Report for the financial year 2023-24 including notice of 13th AGM along with Attendance Slips and Proxy Forms have been sent on Email IDs of those members whose E-mail IDs are registered with the Depository Participant(s)/Company, unless a member has requested for a physical copy of the same. The Documents shall be sent through permitted mode to all members

Company on all working days (Monday to Saturday) from 10.00 a.m. to 01.00 p.m. except holidays, upto the date of the meeting. 12. The remote e-voting period begins on 27th September, 2024 at (9:00 A.M.

For and on behalf of the Board

Date: 06.09.2024

member. The instrument appointing proxy must be deposited at the registered

R R Financial Consultants Limited CIN: L74899DL1986PLC023530

Regd. off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road. New Delhi-110001 Phone:- 011-44441111 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com NOTICE OF THE 37th ANNUAL GENERAL MEETING.

- **EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE** Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, September 27, 2024 at 12.30 P.M (IST) through Video Conferencing (VC) /Other Audio Video Means (OAVM). The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company in compliance with the applicable provisions of the Companie: Act, 2013 ('the Act') & the Rules made thereunder & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR') read with General circulars No 02/2022 dated 05.05.2020 and General circulars No. 02/21 dated 03.01.2021, General circulars No. 20/2021 dated 08. 12.2021, General circulars No. 21/2021 dated 14.12.2021 & General Circular No. 02/2022 dated 05.05.2022 & other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (collectively referred as relevant circulars) without the physical presence of the members. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned quorum u/s 103 of the Act.
- 37th AGM Notice along with the Annual Report 2023-24, has been sent to all the members of the Company whose email address is registered with the Company/ DP(s) through electronic mode. The same will also be available on the Company's website www.rrfcl.com & on BSE website www.bseindia.com & on the Company's RTA, M/s Link Intime India Pvt. Ltd. (LIIPL website at https://instavote.linkintime.co.in.
- Notice pursuant to section 91 of the Act, and Regulation 42 & 47 of 'SEBI LODR' is hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Friday, September 27, 2024, (both days inclusive)
- Manner of registering/ updating email addresses for obtaining AGM Notice, Annual Repor
- 2023-24 and/ or login credential for joining the AGM through VC/ OAVM including e-voting Members who have not registered their email address and in consequences the Annua Report, AGM Notice & e-voting instructions cannot be serviced, may temporarily get the email address and mobile number registered with LIIPL, by accessing the link enotices@linkintime.co.in or call them at :- Tel: 022 - 49186000. Members are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number to sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with user ID and
- Alternatively, members may send an e-mail request at the email id cs@rrfcl.com.along with scanned copy of the signed request letter providing the e-mail address, mobile number self-attested PAN copy and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual Report, AGM Notice & the e-voting instructions.
- In order to enable the Company to comply with MCA circulars and to participate in the green initiative in corporate governance, members are requested to register their email addresses in respect of shares held in electronic form with their DP(s) permanently for sending the Annual Report, AGM Notice & the e-voting instructions.
- Manner of casting vote(s) through e-voting and joining the AGM. Members can cast their vote(s) on the business as set out in the notice of the AGM
- through electronic voting system (e-voting) b) The manner of voting remotely (remote e-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses in providing in the notice of AGM.
- c) The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able
- d) The login credential for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/ LIIPL/ DP(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to notice of AGM.
- The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC.
- Electronic copies of the 37th AGM Notice & the Annual Report of the Company for the FY 2023-24 has been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company Depository participant(s). The 37th AGM Notice and the Annual Report for the FY 2023-24 is also available on the Company's website www.rrfcl.com.
- Members holding shares either in physical form or in demateralised form, as on the cutoff date of 20th September, 2024, may cast their vote electronically on the Ordinary or/ and Specia Business(es) as set out in through electronic voting system of M/s Link Intime India Private Limited the 37th AGM Notice.
- The Members are informed that

Place: New Delhi

Date: 05.09.2024

- a) The electronic transmission of Annual Report, 37th AGM Notice & other documents has been completed on 5th September, 2024. b) E-voting shall commence on Tuesday, 24th September, 2024 at 9 am & ends on
- Thursday 26th September, 2024 at 5 pm. Remote e-voting module shall be disabled post this date and time i.e., 26th September, 2024 at 5 pm.
- c) In case of any queries, members may visit Help and FAQ section & e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or call them at :- Tel : 022 - 49186000.

For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited Rajat Prasad

Managing Director DIN: 00062612

एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

सीआईएन: L18100UP2011PLC043209

रजि. ऑफ.: ९, लोहिया तालाब, छोटी बसही पो.: विंध्याचल मिर्जापुर, यूपी 231307 IN, फोन: 0120-2895246

ईमेल: info@sbcexportslimited.com, वेबसाइट: www.sbcexportslimited.com

13वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और पुस्तक बंद करने की सूचना

नोटिस एतदवरा दिख जाता है कि:-1. कांपनी के सदस्यों की 13वीं वर्षिक आम बैठक 30 सितंबर, 2024 दिन सोमवार को सुबह 10:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ९, लोहिया तालब, छोटी बराही पी.ओ.: विंध्याचल, मिर्जपुर 231307,

उत्तर प्रवेश में होगी।, बैठक की सुधन में निर्धारित व्यवसाय को निष्पदित करने के लिए। 2. वितीय वर्ष 2023-24 के लिए वर्षिक रिपोर्ट के खब एजीएम के मेटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 05 शिलंबर, 2024 को या उससे पहले सभी सेवरधारकों को भेज दी गई हैं, जिनके ईमेल पते

कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिमाणियों के साथ पंजीकृत हैं। 3. ईमेल पते को पंजीकृत/अधतन करने का तरीका.

डीमैटीरियलाइउड रूप में शेवर रखने कले शेवरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॅडिस्टरी प्रतिभागियों

के माध्यम से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी में पंजीकृत करें।

4. विलीय वर्ष 2023-24 के लिए 13वीं एजीएम की मुचन और वर्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.sbcexportslimited.com पर स्टॉक एक्सपेंग वानी बीएसई लिमिटेड www.bscindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सपेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nscindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

5. भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने रखान पर एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति पचार तक के सबस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है और कूल मिलकर कंपनी की कुल हेयर पूंजी का वस प्रतिहत से अधिक नहीं रखता है। इसके अलाव, मतवान का अधिकार रखने वाली कांपनी की कुल सेवर पूंजी का वस प्रतिस्त से अधिक रखने वाल सक्स्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या सबस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा। प्रॉक्सी नियुक्त करने वाल उपकरण बैठक आयोजित होने के रामय से कम से कम 48 घंटे पहले कांपनी के पंजीकृत कार्यालय में जम किया जाना चाहिए।

- 6. कॉपेरिट सबस्वों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनिधम, 2013 की धारा 113 के अनुसार, अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मलदान करने के लिए अधिकृत करते हुए, बोर्ड के प्रत्याव की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।
- 7. बैठक हुरू होने के लिए निर्धारित समय ते 24 घंटे पहले हुरू होने और बैठक के समापन के सब रामार होने वाली अवधि के बौरान, सबस्य कांपनी के व्यावसायिक घंटों के बौरान किसी भी रामय वर्ज प्रॉक्सी का निरीक्षण करने के हकवार होंगे, बहारें कि ऐसा न हो। कांपनी को 3 दिन से कम का सिविद्य त नोटिस पिया जाता है।

8. सदस्यों/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी हुई उपरिचति पर्धियां संसम्ब करनी चरिए।

9. वर्षिक आम बैठक (एजीएम) के उद्देश्य से कांगरी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक

मंगलवार, 24 शितंबर, 2024 से सोमवार, 30 शितंबर, 2024 (बोलों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। 10. विलीय वर्ष 2023-24 के रिचर क्षिक रिपोर्ट जिसमें उपरिवरित पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म के सब 13वीं एजीएम की सूचन शामिल हैं, उन रुवस्यों की ईमेल आईडी पर भेज वी गई हैं, जिनकी ई-मेल आईडी डिपॅजिटरी पर्टिसिपेंट/कंपनी के साथ पंजीकत हैं, जब तक कि एक सदस्य ने इसकी मौतिक प्रति के लिए अनुरोध किया है। वस्तावेज भौतिक मोड में शेवर रखने वाले सभी सबस्वों को अनुमत मोड के मध्यम से भेजे जाएंगे।

11. नेटिस और व्याखवातमक विवरण में निर्विष्ट वस्तावेज सभी कार्य विवसों (सोमवार से शनिवार) को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रखे जाएंगे। सुद्धियों को छोड़कर, बैठक की तारीख तक।

12. रिमोट ई-वोटिंग अवधि 27 रितंबर, 2024 (9:00 पूर्वह IST) ते शुरू होती हैं और 29 रितंबर, 2024 (5:00 अपराह्न IST) पर रामान होती है। इसके बाद वोटिंग के लिए बिगलेवर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर विया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड लिवि (कट-ऑफ तिथि) यानी 23 तितंबर, 2024 को सदस्यों/लाभर्थी स्वामयों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे इलेक्ट्रेनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। हेयरधरकों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि, 23 हितंबर, 2024 को कंपनी की चुकता इक्किटी होयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

बोर्ड के लिए और उतकी ओर ते एतबीती एक्कपोर्ट्त लिमिटेड के लिए

एलडी/-दिनांक: 06.09.2024 रखनः राहिबाबाद

हरिओम दर्मा कंपनी रुचिव

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्रपत्र सं. आइएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कंपनी हो मंत्रीकृत कार्यालक एक सञ्च से दूसरे राज्य में परिवर्तन कें लिए समाचार पत्र में प्रकारित किया जाने वाला विज्ञापन केंद्र सरकार, (क्षेत्रीय निवेशक),

उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में, अद्यतन तिथि के अनुसार संशोधित

स्पाइजेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U74999UP2018FTC105687 ांजीकृत कार्यालयः संपत्ति नं, 295-296 इकोटेक-1 एक्सटेंशन, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा,

उत्तर प्रदेश - 201310 ई-मेलः jdpark@spigen.com याचिकाकर्ता / आवेदक तदद्वारा आम जनता को सार्वजनिक सुधना दी जाती है वि यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को एक आवेदन करने का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी अपने पंजिकत कार्यालय को '''**उत्तर प्रदेश राज्य**'' ते "केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली" में बदलने में सक्तम वनाने के लिए **सोमवार. 12 अगस्त 2024** को आयोजित

स्ताधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार

कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन में परिवर्तन की परि करने की मान की जाती है। होई ही व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह या तो निवेशक शिकायत प्रस्तप फाइन कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, एक हलफनामें के साथ अपनी आपतियों को क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र **वी-2 विंग, दसरी** मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना के प्रकाशन के तारीख से **चौदह 14 दिनों** के भीतर पंजीकत डाक द्वारा भेजें और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को ऊपर उल्लिखित उसके पंजीकृत कर्मालय के पते पर एक प्रति गेजें।

> आवेदक के लिए और उनकी ओर से स्पाइजेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

जॉगदेओक पार्क दिनाकः 06.09.2024 (निदेशक) स्थान : नोएडा डीआईएनः 08786295

नई दिल्ली रेलीविजन लिमिरेड

CIN: L92111DL1988PLC033099 पंजीकृत कार्यालय: W-17, द्वितीय तल, ग्रेटर केलाश - L नई दिल्ली-110048 फोन: (91-11) 4157 7777, 2644 6666; ई-मेल: secretarial@ndtv.com; वेबसाइट: www.ndtv.com पोस्टल बैलेट नोटिस और ई-वोटिंग सुचना

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 11 और अन्य लागु पावधानों, यदि कोई हो, के अनपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या १४/२०२० दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, २०/२०२० दिनांक ५ मई, २०२०, २२/२०२० दिनांक 15 जुन, 2020, 33/2020 दिनांक 28 शितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जुन, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, २०२१, ३/२०२२ दिनांक ५ मई, २०२२, ११/२०२२ दिनांक २८ दिसंबर, २०२२ और ९/२०२३ दिनांक २५ सितंबर, २०२३ कॉपेरिट कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी (सामुहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के विनियमन ४४ सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विभियम, २०१५, भारतीय कंपनी सचिव संख्यान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक 'एसएस -2') और किसी भी अन्य लागू कानून, नियम और विनियमन (किसी भी वैधानिक संक्षेधन या पुन: अधिनियमन सहित, वर्तमान र गगू), के अनुपालन में कंपनी विशेष व्यवसायों के लिए जैसा कि २ सितंबर, २०२४ के पोस्टल बैलट नोटिस में स्पन्दीकरण विवरण के साथ बताय गया है सदस्यों से साधारण/विक्षेष प्रस्तावों के माध्यम से, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (अर्थात रिमोट ई-वॉटिंग) अनुमोदन चाहती है।

पोस्टल बैलेट गोटिस (-गोटिस-) की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ, व्याख्यात्मक कथर्गों के साथ, गुरुवार, ५ सितंबर, २०२४ को उन सदस्यों को भेज दें गई हैं, जिनके नाम नेशनल तिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') और सेंट्रल हिपॉजिटरी सर्विरोज (इंडिया) लिमिटेड 'सीडीएसएर') से शुक्रवार, ३० अगस्त, २०२४ ('कट-ऑफ तिथि') तक प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सुची में दिखाई देते है भीर जिन्होंने कपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकत किए हैं।एमसीए परिपत्रों में दी गई छट के अनुसार, इस पोस्टल बैलेट के लिए सदस्यों को नोटिस की भौतिक प्रतियाँ, पोस्टल बैलेंद्र फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई एनवेलप नहीं भेजे जा रहे हैं।

यह मोटिस कंपनी की वेबसाइट <u>www.natv.com</u> और स्टॉक एक्सचेंजों यांनी बीएसई लिमिटेड और मेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिय लिमिटेड पर कमश www.bseindia.com और www.nseindia.com और एनएसडीएन की वेबसाइट www.evating.nsdl.com पर

कंपनी सदस्यों को एनएसडीएल हारा प्रदान की गई ई-वोदिंग सेवाओं के मध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश नेटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध है.

शनिवार, ७ सितंबर, २०२४ को सबह ९:३० बजे ई-वॉटिंग की शुरुआत

ई-वोदिंग का समापन रविवार, ६ अक्टूबर, २०२४ को शाम ५:०० बजे इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक रूप में या डीमेटरियलाइन्ड रूप में शेयर रक्षने वाले सदस्य ई-वॉटिंग ट्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।

एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मत डाल दिया जाता है, तो उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होती है। सदस्यों के मतदान अधिकार कद-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पुजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जो कद-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

कंपनी के निदेशक मंडल ने पोस्टल बैलट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स विशाल अरोड़ा एर एसोसिएटस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेकेटरीज को जांचकर्ता के रूप में नियक्त किया है।

पोस्टल बेलट के माध्यन से किए गए मतदान का परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, पोस्टल बेलट के समापन से दी (2) कार्य दिवसों के भीतर यानी ८ अक्टूबर, २०२४ को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। उक्त परिणान स्टॉक एक्सवेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं. को सूचित करने के बाद कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे इसके अतिरिक्त, परिणाम कंपनी की वेबसाइट यानी www.ndtv.com और NSDL की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर भी अपलोह

ई-वोटिंग के बारे में किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जान वाले प्रश्न (FAQ) और ई-बोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फी नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर NSDL की वरिष्ठ प्रवंधक सुश्री पल्लवी म्हान्ने को अनुरोध भेज सकते हैं। कृते न्यू दिल्ली रेलीविजन लिमिरेड

स्थान: नई दिल्ली देगांक: ६ सितंबर, २०२४

परिनिता भूटानी दुम्मल कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

ट्राइटन कॉर्प लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: आर - ४, युनिट १०२, प्रथम तल, सिंहकी एक्सटेंशन मेन रोह, मालवीय नगर, नई दिल्ली- ११००१७ CIN: L74899DL199DPLC039989; इंगेल: cs@tritoncorp.in; फोन: 011-49096562

वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की जानकारी

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि द्वाइटन कॉर्प लिमिटेड (*कंपनी*) के सदस्यों की ३४वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शनिवार, २८ सितंबर, २०२४ को दोपहर ०१.०० बजे ist पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग / अन्य ऑडियो-विजुञल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निधरित व्यवसाय के लेन-देन के लिए आयोजित की जाएगी।

कॉरपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या १४/२०२० दिनांक ०८ अप्रैल, २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, २०/२०२० दिनांक ०५ मई २०२० और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपन्नों के माध्यम से, साथ ही नवीनतम परिपन्न संख्या ०९/२०२३ दिनांक २५ सितंबर, २०२३ ('एमसीए परिपन्न') और सेबी परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनोंक ०७ अक्टबर, २०२३ और भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी (सामहिक रूप से सेबी परिपत्र के रूप में संदर्भित) संबंधित परिपत्रों के माध्यम से शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट और बैठक की सुचना की भौतिक प्रतियो भेजने की आवश्यकता के बारे में छुट प्रदान की है। इसलिए कंपनी ने वितीय वर्ष 2023-24 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ 34वीं एजीएम की सुचना का लिंक गुरुवार, 05 सितंबर, 2024 को इलेंक्ट्रॉनिक मोड के मध्यम से उन शेयरधारकों को भेज दी है, जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('रजिस्ट्रार') डिपॉजिंटरी प्रतिभागियों ('डीपी')

वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट <u>www.tritoncorp.in</u> पर, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेंड 'बीएसई') की वेंबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग:

कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अथिनियम') की धारा १०८ के अनुपालन में, समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम २० के साथ भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठको पर सचिवीय मानक ('एसएस-2') और सेनी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएँ ली हैं।

सदस्य केंवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और भागीदारी के तरीके और अन्य प्रासंगिक विवरण कंपनी द्वारा एजीएम की सचना में प्रदान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 103 के तहत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कोरम की गणन के उद्देश्य से गिना जाएगा। तदनुसार, कृपया ध्यान दें कि कंपनी की ३४वीं एजीएम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। रिमोर ई-वोरिंग सुविधा **बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे (IST) से शुरू होगी और शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को शाम 5 बजे (IST)** पर समाप्त होगी। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोर ई-वोरिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है या उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान अपना ई-वोट डालने के पात्र होंगे।

केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि यानी **शनिवार, 21 सितंबर 2024** को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम में रिमोट ई-वॉर्टिंग/ई-वॉर्टिंग की स्विध

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, व evoting@nsdl.co.in पर या आरटीए, गास-सर्विसेज लिमिटेड को info@masserv.com पर अनुरोध भेजकर रिमोट ईवोटिंग के लिए लॉगिन-आईडी और पासव नेसर्स ए.के. चौधरी एड एसोसिएट्स, प्रेक्टिसिंग कंपनी सेकेंटरी (FRN- \$2018DE638700) को ई-वोदिंग प्रक्रिया के लिए स्कटिमाइजर नियक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम, २०१३ की थारा ९१, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम १० और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम

2015 के विनियम 42 एवं 47 के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के उद्देश्य से रविवार, 22 सितंबर, 2024 से शमिवार, 28 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी िचोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, कृपया <u>www.masserv.com</u> के सहायता और FAQ अनुभाग पर जाएं या हमारे आरटीए, मेसर्स एमएएस सर्विसंज

लिमिटेड, टी -34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण - ११, नई दिल्ली - ११०.०२०, संपर्क नंबर ०११-२६३८७२८१/८२/८३ फैक्स: - ०११-२६३८७३८४ से संपर्क करें। यह जानकारी कंपनी के सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है, जैसा कि ऊपर संदर्शित प्रासंगिक परिपन्नों के अनुपालन में है। बोर्ड के आदेश र

कृते द्वाइटन कॉर्प लिमिटेड हस्ता./-मीना रस्तोर्ग

SHALIMAR

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 05.09.2024

शालीमार पेंट्स लिमिटेड

सीआईएनः एल24222एचआर1902पीएलसी065611

पंजी. कार्यालयः स्टेनलेस सेंटर, 4वां तल, भूखंड सं. 50, सेक्टर—32, गुरुग्राम, हरियाणा—122001 निगमित कार्यालयः प्रथम तल, भूखंड सं. 28, सेक्टर-32, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 वेबसाइटः www.shalimarpaints.com, ई-मेलः askus@shalimarpaints.com दूरभाष सं: +91 124 461 6600, फैक्स नं +91 124 461 6659

122वीं वार्षिक आम बैठक तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है किः

1) शालीमार पेंट्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की वित्तीय वर्ष 2023—24 हेतु 122वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') का आयोजन शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 को 12.30 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य दृश्य—श्रव्य माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से किया जाएगा, और यह आयोजन जो है वह एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसायों का लेन–देन करने के लिए किया जाएगा, जो किसी आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक अर्थात व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 और सेबी द्वारा जारी 07 अक्टूबर, 2023 के परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 के साथ-साथ एमसीए और सेबी द्वारा जारी अन्य लाग् परिपत्रों (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित, कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन के तहत एजीएम की सूचना में 2) एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के निबंधनों के अंतर्गत एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय

- विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को केवल ईमल द्वारा 5 सितम्बर, 2024 को प्रेषित कर दी गई है, जिनके ईमेल पते 30 अगस्त, 2024 के कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सुचना की भौतिक प्रति भेजे जाने की आवश्यकता की जानकारी एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों द्वारा समाप्त कर दी गई है।
- 3) ऐसे सदस्यगण जो कट—ऑफ तिथि अर्थात 20 सितम्बर, 2024 तक या तो भौतिक प्रारूप में अथवा अभौतिक प्रारूप में इक्विटी शेयर धारण किए हुए हैं, वे सीडीएसएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान कर सकते हैं। समस्त सदस्यों को सुचित किया जाता है कि:
 - 1. एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार साधारण तथा विशेष व्यवसायों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने द्वारा लेन-देन किया जाएगा;
 - 2. दूरस्थ ई-मतदान अवधि का प्रारंभ 24 सितम्बर 2024 को प्रातः 09.00 बजे (भा.मा.स.) होगा;
 - 3. दूरस्थ ई-मतदान अवधि का समापन 26 सितम्बर 2024 को सायं 05.00 बजे (भा.मा.स.) होगा;
 - 4. एजीएम की समयाविध में दूरस्थ ई-मतदान / ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने की योग्यता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 20 सितम्बर, 2024 है और यदि कट-ऑफ तिथि के अनुसार एक व्यक्ति जो एक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी उद्देश्यों के लिए पमद्मा / माना त्ताना चाहिए
- 5. कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषणोपरांत कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात 20 सितम्बर 2024 तक शेयर धारण करता है, वह beetalrta@gmail.com पर ईमेल द्वारा एक अनुरोध भेजकर युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि एक ऐसा व्यक्ति जो ई-वोटिंग के लिए बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह मतदान करने के लिए विद्यमान युजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
- 6. व्यक्ति जो एजीएम की सूचना को भेजने के उपरांत कंपनी के शेयरों का उपार्जन करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और अंशों का धारण किए हुए है और मतदान के लिए योग्य है, वह एजीएम की सूचना में उपलब्धानुसार लॉगिन आईडी और पासवर्ड सुजित करने के लिए प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति ई-मतदान हेत् सीडीएसएल के साथ पहले ही पंजीकृत है तो मतदान करने के लिए विद्यमान प्रयोद्धा आईडी और पासवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है:
- 7. श्री अंकुश अग्रवाल, साझीदार अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री कुमार भावेश किशोर, मेसर्स मैक्स एंड कंपनी के पार्टनर, पेशेवर कंपनी सचिव को एक उचित एवं पारदर्शी तरीके यानी विधि के अंतर्गत ई–मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुद्ध किया गया है।
- 8. सदस्यगण नोट करें कि: क) दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल उपर्युद्ध तिथि एवं समय के उपरांत निष्क्रिय कर दिया जाएगा और यदि सदस्य द्वारा किस संकल्प पर एक बार मतदान कर दिया जाता है तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी; ख) सदस्यगण जो एजीएम से पहले दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर चुके हैं वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें पुनः अपना मतदान करने का अधिकार नहीं होगा; ग) इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से मतदान करने के लिए उपलब्ध सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी; तथा घ) एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अथवा सदस्यों की पंजिका में अभिलेखित है, केवल वे ही दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा के साथ-साथ एजीएम में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
- 9. यदि आपकी एजीएम में उपस्थित होने और ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न अथवा शिकायत है तो आप www.evotingindia.comए पर उपलब्ध हेल्प सेक्शन के अंतर्गत Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा e-voting manual का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेज / लिख सकते हैं अथवा श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, सीडीएसएल, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन पयूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013

से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल करें। एजीएम की सूचना में उस विधि से संबंधित अनुदेश समाविष्ट हैं जिसके तहत शेयरधारक एजीएम के समय पर ई–वोटिंग द्वारा अथवा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ सकते हैं।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.shalimarpaints.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट(टों) अर्थात अर्थात क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com, पर जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) पर www.cdslindia.com मे उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के नियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार 21 सितंबर, 2024 से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर–1, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के आरटीए, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे, नई दिल्ली—110062 को भेजकर अपना ई—मेल पता और / या बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अपडेट कर सकते हैं। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ई—मेल पता और / या बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अपडेट कर सकते हैं।

इसके अलावा, शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट https://www.shalimarpaints.com/investors-relations/important-information-for-shareholders पर संबंधित फॉर्म भी देख सकते हैं।

स्थानः गुरुग्राम दिनांकः 5 सितम्बर, 2024

शिखा रस्तोगी कंपनी सचिव एवं प्रमुख-कानूनी

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते शालीमार पेंट्स लिमिटेड

Newtime Infrastructure Limited

Regd. Office: Begampur Khatola, Khandsa, Near Krishna Maruti, Gurgaon, Basai Road, Haryana -12200 Tel. No.: 91-7419885077 CIN: L24239HR1984PLC040797

INFORMATION REGARDING 40th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

The 40th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Newtime Infrastructure Limited ("the Company') will be held on Monday, 30th September, 2024 at 01:30 P.M. at the Registered Office of the Company at Begampur Khatola, Khandsa, Near Krishna Maruti, Gurgaon, Basai Road, Haryana -122001 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with any MCA Circulars related thereto, to transact the businesses as set out in the notice of AGM.

In compliance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the electronic copies of Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be only sent to shareholders whose name appear in the register of members as at the closing hours of business on Friday, 30th August 2024 and whose email address are registered with the depository participants or with the Company or M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, (Registrars & Share Transfer Agent of the Company).

The said documents will also be available at company's website at www.newtimeinfra.in and CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE Website i.e. www.bseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is also informed that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **September** 27, 2024 to September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 40th AGM of the Company.

Further the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at 40th Annual General Meeting (AGM) by electronic means ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (herein after referred as "CDSL") as agency to provide remote e-voting facility.

Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, along with person whose names recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of 23rd September 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting

The Remote E-voting period will commence from Friday, September 27, 2024 (09:00 a.m. IST) and will end on Sunday, September 29, 2024 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting

Any Person who have acquired shares and became member after the dispatch of the Notice of the AGM but before the 'Cut-off Date' may obtain their user ID and Password for e-voting from the Company's Registrars & Share Transfer Agent, M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Beatal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind. Local Shopping Center, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi - 110062, Tel: 011-29981281-83 Email: investon@beetalfinancial.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then he/ she can use his/ her existing user ID and password for casting the vote through e-voting.

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting held in physical mode but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 02223058738 and 022-23058542/43. It is also requested to all the shareholders to update their Email IDs for supply of Annual Reports, Notice of AGM and other communications from the Company. Further, up-dated Bank details will enable electronic credit of dividends,

if so, declared by the Company in future, without any delay and banking hassles for shareholders. Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to approach their respective Depository Participants (DPs) for updating the Email address, Mobile No. and Bank Mandates as per the laid down procedure with the RTA/ Depository.

In case of Physical Holding:

Shareholders holding shares in physical form are requested to send following details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited having office at Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi - 110062 at investor@beetalfinancial.com and beetalrta@gmail.com in order to facilitate for sending the Notice of Annual General Meeting, Annual Report and other important communications in electronic mode. Members may access the relevant forms available on the website of the Company at

Details: Full Name; Address; Email address; Mobile No.; No. of Shares held; Folio No., Certificate No.; Distinctive No; Original scan copy of PAN and Aadhar Card; Original scan copy of Cancelled Cheque or Passbook signed by Bank Manager with IFSC & MICR NO (For Bank Mandate).

In case of Demat Holding:

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their email addresses with the relevant Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

Please note that the Members who have not provided their email address will not be able to get the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24. However, the same will be available on the website of the Company/Stock Exchange i.e. www.newtimeinfra.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com in due course of

For further information, Members can write to the Company/RTA of the Company at newtimeinfra2010@gmail.com /investor@beetalfinancial.com.

For Newtime Infrastructure Limited

Rajiv Kapur Kanika Kapur

Director

DIN: 07154667

Place: Haryana Date: 05.09.2024



पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड

(सीआईएन : L45201DL1999PLC195937)

पंजीकृत कार्यालय : एनबीसीसी प्लाजा, टॉवर-II, चौथी मंजिल, पुष्प विहार, सेक्टर- \mathbf{V} , साकेत, नई दिल्ली-110017 वेबसाइट : www.pncinfratech.com, ई-मेल : complianceofficer@pncinfratech.com 25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर,

लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि और ई-वोटिंग सूचना

कंपनी के सदस्यों और सभी व्यक्तियों को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों ('अधिनियम'), कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ('एमसीए') द्वारा जारी 25 सितंबर 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 और अन्य सभी लागु परिपत्रों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा 07 अक्टूबर 2023 को जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 के साथ पठित प्रावधानों और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना (एजीएम सूचना) में निर्धारित अनुसार कारोबार करने के लिए शेयरधारकों को एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना कंपनी की 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओवीएएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट, गुरुवार, 5 सितंबर, 2024 को ईमेल द्वारा उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। एजीएम नोटिस सिहत उक्त वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.pncinfratech.com/financials.html पर, मेसर्स लिंक इन

स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों, सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने शेयरधारकों को एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है (यानी रिमोट ई-वोटिंग)। कंपनी एजीएम के दौरान उन शेयरधारकों को भी ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। कंपनी ने एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए लिंक इन टाइम के साथ

टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (लिंक इनटाइम/ आरटीए') की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर और

एक व्यवस्था की है। अधिनियम की धारा 91, उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियमन') के विनियम 42 के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें कंपनी की उक्त एजीएम के उद्देश्य से रविवार, 22 सितंबर, 2024 से शनिवार, 28 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित)

डीआर एसोसिएट्स (सदस्यता संख्या एफसीएस 5339; सीपी संख्या 4629) के पार्टनर, कंपनी सचिव श्री दीपक गृप्ता को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। मतदान का परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर यानी 30 सितंबर, 2024 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा और इस प्रकार घोषित परिणाम समेकित स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www.pncinfratech.com) और लिंक इन टाइम की वेबसाइट (https://instavote.linkintime.co.in) पर रखे जाएंगे।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि: a. वह व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि यानी शनिवार, 21 सितंबर, 2024 को डिपॉजिटरी/आरटीए द्वारा प्रबंधित सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा

का लाभ उठाने का हकदार होगा। b. रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य एजीएम नोटिस में उल्लिखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। 27 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की अनुमित नहीं दी जाएगी। एक बार किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, बाद में किसी भी बदलाव की

अनमति नहीं दी जाएगी। :. शेयरधारकों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 21 सितंबर, 2024 को कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में

उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। 1. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

e. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। . कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम नोटिस भेजने के बाद और कट-ऑफ तारीख यानी शनिवार, 21 सितंबर, 2024 से पहले कंपनी का सदस्य बन जाता है, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी 'रिमोट ई-वोटिंग' के साथ-साथ 'ई-वोटिंग' द्वारा अपने वोटिंग

अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, और e-voting@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। . यदि शेयरधारकों/सदस्यों के पास एजीएम/ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे https://instavote.linkintime.co.in के सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs') तथा Insta Vote e-Voting manual का संदर्भ ले सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष-ई-

वोटिंग, पता-लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई-400083 से फोनः +91 22 49186000 या ई-मेलः enotices@linkintime.co.in पर संपर्क कर सकते हैं या complianceofficer@pncinfratech.com, फोन नंबर 0562-4054400 पर ई-मेल लिखकर अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं। ा. कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 30% की दर से अर्थात 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 0.60 रुपये (केवल साठ पैसे) लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए शनिवार, 21 सितंबर, 2024

भीतर किया जाएगा।

स्थानः आगरा

को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। यदि घोषित किया जाता है, तो लाभांश का भुगतान घोषणा के 30 दिनों के निदेशक मंडल के आदेश से पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के लिए

तपन जैन

दिनांकः 05 सितंबर, 2024 कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सदस्यता नं: ए22603

Lucknow

www.readwhere.com